



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

No. 745]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

सं. 43/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 1123(अ).—**अभिहित प्राधिकारी यूरोपीय संघ, कोरिया आरपी, थाईलैंड (जिसे इसके बाद विषयगत देशों कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “1500 सीरीज और 1700 सीरीज का स्टाइरिन बुटाडीन रबर (एसबीआर)” (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उपशीर्ष 400219 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, तारीख 12 जुलाई, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 14/10/20115-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

- (1) संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देशों से भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है।
- (2) संबद्ध देशों से पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव बना रहे हैं, लाभप्रदता को प्रभावित कर रहे हैं।
- (3) उपर्युक्त क्षति का प्रभाव वास्तविक क्षति तथा वास्तविक मंदी, दोनों के रूप में है।

और अभिहित अधिकारी ने यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत माल के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाया जाए, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपादन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्धृत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में

विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (10) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा कॉलम (9) में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है।

### सारणी

क्रस.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	400219	सीरीज 1500 1700 और सीरीज का इमल्शनस्टाइरिन बुटाडीन रबर (ई-एसबीआ)	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	सिंथस करालुपी ए.एस. चेज गणराज्य	सिंथस करालुपी ए.एस. चेज गणराज्य	207.49	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	400219	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	सिंथस डाउरी 7 स्पे. जेड. ओओ. पौलेंड	सिंथस डाउरी 7 स्पे. जेड. ओओ. पौलेंड	207.49	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	400219	-वही-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	क्रम सं. 1 व 2 के अलावा कोई अन्य संयोजन		266.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	400219	-वही-	यूरोपीय संघ	कोई अन्य	कोई अन्य	कोई अन्य	266.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
5	400219	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्ययनीन कोई अन्य देश	यूरोपीय संघ	कोई अन्य	कोई अन्य	266.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
6	400219	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	कुम्हो पैट्रो केमिकल कं. नि.	कुम्हो पैट्रो केमिकल कं. नि.	33.95	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
7	400219	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	कुम्हो पैट्रो केमिकल कं. नि.	i. देवी इंटरनेशनल कारपोरेशन, कोरिया जनवादी गणराज्य ii. देवी इंटरनेशनल सिंगापुर	33.95	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
8	400219	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	एलजी केम. लि. कारिया जनवादी गणराज्य	एलजी केम. लि. कारिया जनवादी गणराज्य	28.68	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
9	400219	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	एलजी केम. लि. कारिया जनवादी गणराज्य	i. एलजी केम. अमेरिका इंक.; ii. हनसुक केमि. कं. लि.; iii. एवरलाइट कोरिया कं. लि.; iv. हर्टी केम. कारपो., v. वॉकेम लि.	28.68	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

10	400219	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	क्रम सं. 6,7,8 व 9 के अलावा अन्य कोई संयोजन		64.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
11	400219	-वही-	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई अन्य	कोई अन्य	कोई अन्य	64.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
12	400219	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्ययनीन कोई अन्य देश	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई अन्य	कोई अन्य	64.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
13	400219	-वही-	कोई अन्य	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई अन्य	कोई अन्य	64.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
14	400219	-वही-	थाइलैंड	थाइलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य	243.60	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
15	400219	-वही-	थाइलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य	कोई अन्य			
16	400219	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अध्ययनीन कोई अन्य देश	थाइलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य			

\* टिप्पणी: स्टाइरिन बुटाडीन रबर 1900 सीरीज और सॉल्यूशन एसबीआर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया जाने वाला प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाये जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

**स्पष्टीकरण:-** इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू "विनिमय दर" वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/206/2016-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2017

#### No. 43/2017-Customs (ADD)

**G.S.R. 1123(E).**—Whereas in the matter of “Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 series and 1700 series,” (hereinafter referred to as ‘the subject goods’) falling under sub-heading 4002 19 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from European Union, Korea RP or Thailand (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings vide notification number 14/10/2015-DGAD, dated the 12<sup>th</sup> July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 12<sup>th</sup> July, 2017, has come to the conclusion that—

- i. there is dumping of product concerned from the subject countries;
- ii. the dumped imports from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry, impacting profitability;
- iii. manifestation of the aforesaid injury is both in form of material injury as well as material retardation,

and, whereas, the designated authority has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes definitive anti-dumping duty on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) and in the currency as specified in column (10) of the said Table, namely :—

TABLE

Sl. No.	Sub-heading	Description of goods *	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount (in USD)	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	European Union	European Union	Synthos Kralupy A.S., Czech Republic	Synthos Kralupy A.S., Czech Republic	207.49	MT	US\$
2	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	European Union	European Union	Synthos Dwory 7 Sp. Z. Oo, Poland	Synthos Dwory 7 Sp. Z. Oo, Poland	207.49	MT	US\$
3	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	European Union	European Union	Any combination other than S. No. 1 & 2		266.00	MT	US\$
4	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	European Union	Any	Any	Any	266.00	MT	US\$
5	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Any country other than those subject to anti-dumping duty	European Union	Any	Any	266.00	MT	US\$

6	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Korea RP	Korea RP	Kumho Petrochemical Co., Ltd	Kumho Petrochemical Co., Ltd	33.95	MT	US \$
7	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Korea RP	Korea RP	Kumho Petrochemical Co., Ltd	i. Daewoo International Corporation, Korea RP ii. Daewoo International, Singapore	33.95	MT	US\$
8	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Korea RP	Korea RP	LG Chem Ltd, Korea RP	LG Chem Ltd, Korea RP	28.68	MT	US\$
9	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Korea RP	Korea RP	LG Chem Ltd, Korea RP	i. LG Chem America Inc.; ii. Hansuk Chemicals Co. Ltd; iii. Everlite Korea Co. Ltd.; iv. Hearty Chem Corp.; v. Wonchem Ltd	28.68	MT	US\$
10	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Korea RP	Korea RP	Any combination other than S. Nos. 6, 7, 8 and 9		64.00	MT	US\$
11	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Korea RP	Any	Any	Any	64.00	MT	US\$
12	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Korea RP	Any	Any	64.00	MT	US\$
13	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Any	Korea RP	Any	Any	64.00	MT	US\$
14	4002 19	Emulsion Styrene	Thailand	Thailand	Any	Any	243.60	MT	US\$

		Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series							
15	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Thailand	Any	Any	Any			
16	4002 19	Emulsion Styrene Butadiene Rubber (E-SBR) of 1500 Series and 1700 Series	Any country other than those subject to anti-dumping duty	Thailand	Any	Any			

\* Styrene Butadiene Rubber of 1900 Series and Solution SBR are excluded from the scope of the product under consideration.

2. The anti-dumping duty imposed shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 354/206/2016-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.